

Jabalpur News: जबलपुर में नकली कीटनाशक बेचने के शक पर क्राइम ब्रांच की दबिश, दुकान से मिला 19 लाख का स्टॉक

Jabalpur News: जबलपुर में कीटनाशक और कृषि संबंधी केमिकल्स बेचने वाली दुकान पर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारा. छापेमारी कीटनाशक बनाने वाली कंपनी की शिकायत पर हुई.

By: [अजय त्रिपाठी, जबलपुर](#) | Updated : 25 Nov 2021 09:57 PM (IST)



(कीटनाशक का सैंपल इकट्ठा करते अधिकारी)

Jabalpur News: जबलपुर में कीटनाशक और कृषि संबंधी केमिकल्स बेचने वाले चौधरी कॉर्प केयर नामक दुकान पर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है. छापेमारी कीटनाशक बनाने वाली कंपनी की शिकायत पर हुई. क्राइम ब्रांच को विजय नगर थाना क्षेत्र में कृषि उपज मंडी के पास नकली कीटनाशक बेचे जाने का शक था. कीटनाशक बनाने वाली कंपनी ने शिकायत की थी कि चौधरी कॉर्प केयर नामक दुकान में उसके ब्रांडेड उत्पाद कोराजन से मिलता जुलता कीटनाशक बेचा जा रहा है, जबकि दुकान संचालक उसके उत्पाद बेचने के लिए अधिकृत नहीं है. संबंधित कंपनी को नकली कीटनाशक बिक्री का भी संदेह था. दुकान से पुलिस ने कीटनाशक का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है.

दुकान से 19 लाख का स्टॉक मिला

कोराजन कंपनी प्रतिनिधियों की शिकायत पर डीएसपी सुशील चौहान के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने छापामार कार्रवाई की. इस दौरान मौके पर 19 पेटी में तकरीबन 19 लाख रुपए का कीटनाशक मिला. कीटनाशक का सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेज दिया गया है.

खरीदी के बिल भी जांच के दायरे में

कार्रवाई के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम के साथ कृषि वैज्ञानिक भी मौजूद थे. पुलिस के मुताबिक दुकान संचालक ने कीटनाशक खरीदी संबंधित जो बिल पेश किए हैं उनकी जांच भी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले को फिलहाल जांच में लिया गया है.

Source: <https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/jabalpur-crime-branch-and-team-of-agricultural-scientists-raided-pesticides-shop-ann-2005099>